

## प्रेस नोट

दिनांक 16.09.2020

**पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश सिंह के निर्देशन में जनपद में गठित एएचटीयू टीम द्वारा 07 बाल श्रमिकों को किया गया रेस्क्यू ।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गौरीगंज/नोडल अधिकारी एएचटीयू जनपद अमेठी श्री अर्पित कपूर के कुशल नेतृत्व में \***“नो चाइल्ड लेबर अभियान”**\* के तहत बाल श्रम रोकने के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू रामराज सरोज व अखिलेश कुमार वर्मा श्रम प्रवर्तन अधिकारी जनपद अमेठी द्वारा जनपद में गठित टीम के साथ थानाक्षेत्र मुसाफिरखाना, जगदीशपुर व जामो में ईंट भट्टा, ढाबा, होटल, दुकान आदि पर बाल श्रमिकों को तलाश करते हुए क्षेत्र के लोगों/अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु जागरूक किया गया ।

इस दौरान बाल श्रमिक 1. अकील पुत्र वकील अहमद, 2. शैबू पुत्र मो० इश्तखार, 3. रहमान खान पुत्र रईस खां को दीपक आटो सर्विस सेन्टर वारिसगंज जगदीशपुर से 4. शान मोहम्मद पुत्र जमील, 5. राफिल पुत्र अनीस को पप्पू आटो गैरेज सुल्तानपुर रोड जगदीशपुर 6. शनि पुत्र रमेश, 7. कुलदीप पुत्र मुन्ना को न्यू सुरेश स्वीट हाउस रायबरेली रोड जगदीशपुर से, कुल 07 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू कर उनके अभिभावकों को सुपुर्द किया गया । श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### **रेस्क्यू किये गये बाल श्रमिकों का विवरण-**

1. अकील पुत्र वकील अहमद नि० इमली थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
2. शैबू पुत्र मो० इश्तखार नि० इमली थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
3. रहमान खान पुत्र रईस खां नि० इमली थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
4. शान मोहम्मद पुत्र जमील नि० पाकर गांव थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
5. राफिल पुत्र अनीस नि० किशुनी थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी ।
6. शनि पुत्र रमेश नि० उत्तर गांव थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
7. कुलदीप पुत्र मुन्ना नि० मुबारकपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।

### **रेस्क्यू टीम का विवरण-**

1. नि० रामराज सरोज प्रभारी एएचटीयू अमेठी ।
2. अखिलेश कुमार वर्मा श्रम प्रवर्तन अधिकारी जनपद अमेठी ।
3. वी०के० मिश्रा वरिष्ठ सहायक श्रम प्रवर्तन अमेठी ।
4. हे०का० उदयभान सिंह जनपद अमेठी ।
5. का० ओमप्रकाश जनपद अमेठी